

Date: 05.02.2021

## **Riba Textiles Limited**

(GOVT. RECOGNISED EXPORT HOUSE)

REGD. OFFICE : DD-14, NEHRU ENCLAVE, OPP. KALKAJI POST OFFICE, NEW DELHI-110019

TELEPHONE : (011) 26236986 FAX : (011) 26465227 CIN NO.: L18101DL1989PLC034528

To,
Corporate Relation Department **BSE Ltd.**25<sup>th</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street Mumbai -400001

Scrip Code: 531952/Equity

Dear Sir(s)

Sub: Submission of newspaper Publication Notice of Board meeting in Compliance with SEBI (Listing Obligations and Requirements) Regulations, 2015.

In compliance with Regulation 47 of Listing SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Company has published an advertisement regarding intimation of ensuing Board Meeting scheduled to be held on 12<sup>th</sup> February 2021, inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial results for the quarter and nine months ended on 31<sup>st</sup> December 2020.

We request you to please take the above on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Riba Textiles Limited

(Neha Dubey)

Company Secretary M. No.: A46655

Encl.: As above

UNNY SOFTWARE LIMITED

CIN: L72300DL2007PLC165836

Regd. Office: Office No 208, 2nd Floor, Plot

No. A-1 Madhuban Tower, Veer Savarkar

Block, Shakarpur Delhi - 110092

Email: funny\_soft@yahoo.com

NOTICE

ursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI

## NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors will be held on Thursday 11th February, 2021 inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 31st December, 2020 along with other business if any.

The information contained in this notice available on the Company's website at www.abhinayleasefinltd.in and the website of Stock Exchange as www.bseindia.com.

For Abhinav Leasing & Finance Limited

Atul Kumar Agarwal Date: 04.02.2021 Place: Delhi



Read. Office: 601. Hernkunt Chambers. 89, Nehru Place, New Delhi - 110 019 CIN: L74899DL1996PLC083073 E-mail: jbma.investors@jbmgroup.com Website: www.jbmgroup.com Ph. 011-26427104 -06; Fax: 011-26427100 COMPANY NOTICE

Pursuant to the Regulations 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations. 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 9 February, 2021 to consider, inter-alia, the un-audited financial results of the Company for the 3rd quarter and nine months ended on 31" December, 2020.

The details of said meeting are also available on the website of the Company www.jbmgroup.com and on the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Further, as per the "Code of Conduct for Prevention of Insider Trading" of the Company, the 'Trading Window' fo Directors / Officers/ KMPs / Designated Persons of the Company has already been closed from 1st January, 2021 and will end 48 hours after the results are made available to the public on 09' February, 2021.

(Vivek Gupta) Date: 02.02.2021 Chief Financial Officer Place : New Delhi & Company Secretary

RAJDARSHAN INDUSTRIES LTD. Regd. Off.: 59. Moti Magri Scheme, Udaiour-(Rai.) 31300 CIN: L14100RJ1980PLC002145, Tel: 0294-242799 Web: www.rajdarshanindustrieslimited.com Email: info@rajdarshanindustrieslimited.com

(Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, February 13, 2021 to consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and period ended December 31, 2020.

Further the trading window for dealing in the securities of Company shall remain closed till 48 hours of the date of declaration of the un-audited Financial Results of the Company for the quarter and period ended December 31, 2020. By Order of the Board

Place: Udaipur For Rajdarshan Industries Ltd. Date: February 03, 2021 Kalp Shri Vaya, Company Secretary

SABRIMALA INDUSTRIES INDIA LIMITED (Formerly known as Sabrimala Leasing and Holdings Limited)

Website: www.sabrimala.co.in Email: cs@sabrimala.co.in Ph: 011-47479723

ursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 6th fleeting (6/2020-21) of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 12th day f February, 2021 at 3:00 P.M. at the registered office of the Company situated at 205, Aggarwal Corporate leights, Netaji Subhash Place, Pitampura Delhi, 110034 inter-alia to consider and approve unaudited Standalone and consolidated Financial Results for the 3rd Quarter/ Nine Months Ended December 31, 2020 along with Limited Review Report and approve other items as stated in agenda. The said notice may be accessed on the Company's website at www.sabrimala.co.in and on the website of the relevant stock exchanges.

Further, pursuant to Regulation 4(1) of SEBI (Prohibitio of Insider Trading) Regulations, 2015 read with the Company's Internal Code of Internal Procedures and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders, the company hereby affirms that the trading window for dealing in the securities of the Company is closed for the Designated Persons covered under the said code of the Company from 2nd January 2021 till 48 hours of making the financial results available

For Sabrimala Industries India Limited Ms. Meenu Sharma Company Secretary

MASTER TRUST LIMITED Regd. Office: Master Chambers, 3rd Floor, 19, Feroze Gandhi Market, Ludhiana-141001 (Pb)

Tel. No.: 0161-5043500 E-mail: secretarial@mastertrust.co.in

Website: www.mastertrust.co.in NOTICE

Notice is hereby given that meeting of Board of Directors will be held on Friday the 12th Day of February, 2021 to consider & approve the Un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the company for the quarter and nine months ended 31.12.2020.

> By order of the Board For Master Trust Limited (Vikas Gupta)

Place: Ludhiana Company Secretary Date: 04.02.2021 & Compliance Officer

Paramount Communications Ltd. CIN: L74899DL1994PLC061295 Regd. Office: Paramount House, C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028

for JBM AUTO LIMITED

PARAMOUNT

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 or the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at the Registered office of the Company at C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028 on Thursday, 11" February 2021 at 04:00 P.M. to inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Results for the

electronically through video-conferencing facility. The information contained in this Notice is also available on the website of

the company i.e. www.paramountcables.com and the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)

(Rashi Goel)

Compliance Officer & Company Secretary

## PRIME INDUSTRIES LIMITED

Read. Office: Master Chambers. 19, Feroze Gandhi Market, Ludhiana-141001 (Pb) CIN: L15490PB1992PLC012662 Tel. No.: 0161-5043500 E-mail: prime\_indust@yahoo.com

Website: www.primeindustrieslimited.com NOTICE

Notice is hereby given that meeting of Board of Directors will be held on Thursday the 11th Day of February, 2021 to consider & approve the Unaudited Financial Results of the company for the quarter and nine months ended 31.12.2020. By order of the Board

> For Prime Industries Limited (Rajinder Kumar Singhania)

> > Fax.: +91-26465227

NOTICE

Pursuant to provision of regulations 29 read

with regulation 47 of the SEBI (Listing

obligations and disclosure requirements

regulations 2015, Notice is hereby given, that

Meeting of the Board of Directors of the

Company is Schedule to be held on Friday, 12th

February, 2021 at 04,30 p.m. at Kishore House,

Assandh Road, Panipat-132103, Haryana, inter

alia, to consider, approve and take on record the

Un-audited Financial results for the Quarter and

nine months ended on 31" December 2020.

Further, the Trading Window for in dealing

securities of the Company is already closed for

all the designated person of the Company and

for their immediate relatives under SEBI

(Prohibition of insider Trading) Regulations,

2015, including all amendments thereof, from

01" January 2021 and it will open after the end of

48 hours after the results are made public, for

the Quarter and nine months ended on 31"

The said notice is also available on th

Company's Website www.ribatextiles.com and

the website of Stock Exchange- BSE Ltd.

For Riba Textiles Limited

(Neha Dubey)

December 2020.

Place: New Delhi

Date: 04.02.2021

Managing Director Place: Ludhiana Date: 04.02.2021

#### LEASING LIMITED Regd. Office: D2-11, Budh Vihar, Phase-1, New Delhi 110086 (DL) E-mail: sns.prop.ltd@gmail.com

**SNS PROPERTIES AND** 

CIN: L65922DL1985PLC020853 Website: www.snsind.com NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors will be held on Thursday the 11th Day of February, 2021 to consider & approve the Unaudited Financial Results of the company for the quarter and nine months ended 31.12.2020. By order of the Board

For SNS Properties And Leasing Ltd (Harwinder Kaur) Place: New Delhi Date: 04.02.2021 Director

SVAM SOFTWARE LIMITED RIBA TEXTILES LIMITED DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalkaji Post (CIN: L65100DL1992PLC047327) Office, New Delhi - 110019 Regd. Office: 224, G/F Swayam Sewa, CIN: L18101DL1989PLC034528 Co-Operative Housing Society Ltd., Tel.: +91-26213012 / 26236986

#### Website: www.svamsoftwareltd.in NOTICE

Jhilmil Delhi East Delhi DL 110032

E-Mail: svamsoftwareltd@gmail.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors will be held on Friday 12th February, 2021, inter alia. to consider and approve the Unaudited Financial Result of the Company for the guarter ended on 31st December, 2020 along with any other business if any.

The said notice may be accessed on the Company's website at www.svamsoftwareltd.in and may also be accessed at Stock Exchange 3 Pre Bid Meeting Website as www.bseindia.com.

> For Svam Software Limited Sd/-

Manisha Agarwal Date: 04.02.2021 Company Secretary (Managing Director) M. No.: A46655 Place: Delhi



TENDER NOTICE No. ICF/PCMM/EOT/01/2021 Existing Amended as

Tender No.0620008	Tender No. 06200082			
All other terms and conditi	ons are remain unaltered.			
<b>GREEN ICF</b>	! CLEAN ICF!			

COSMO FERRITES LIMITED Regd. Off.: P.O. Jabli, Distt. Solan, H.P. - 173209

CIN- L27106HP1985PLC006378, Tel: 01792-277231-32/35/36, Fax: 01792-277234 E-mail: investorservices@cosmoferrites.com, Website: www.cosmoferrites.com

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, February 10, 2021 at New Delhi inter-alia to consider and approve the Financial Results of the Company for the Quarter ended 31st December, 2020.

For Cosmo Ferrites Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Aditya Sharma

Place: New Delhi Date: February 04, 2021



ORACLE CREDIT LIMITED Read, Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016 CIN: L65910DL1991PLC043281 E-mail: oracle\_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in Website: www.oraclecredit.co.in, Phone: 011- 26167775

NOTICE OF BOARD MEETING Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Thursday, February 11, 2021 at the Registered Office of the Company at P-7 Green Park Extension, New Delhi- 110016, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter

This information may be accessed on the Company's website at www.oraclecredit.co.in and on the Stock Exchange's website at For Oracle Credit Limited

Sd/-Vineeta Gautam Place: New Delhi Date: 04.02.2021 (Company Secretary & Compliance Officer)



(₹ in Lacs)



Place: New Delhi

Date: 05.02.2021

# **BSL Limited**



## STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020 Quarter Ended

SI **Particulars** Nine Months Ended Year Ended No. 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2019 31.03.2020 Unaudited Audited 1 Total Revenue from Operations 8880 9960 22978 31561 39004 2 Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, 172 98 (204)168 (87)Exceptional and/or Extraordinary items) 3 Net Profit / (Loss) for the period before tax 172 98 (204)168 (87)(after Exceptional and/or Extraordinary items) 4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after 146 140 (183)300 166 Exceptional and/or Extraordinary items) 171 156 18 220 (170)5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 6 Equity Share Capital 1029 1029 1029 1029 1029 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown 6476 in the Balance Sheet of previous year 8 Earnings Per Share (of ₹ 10 /- each) not annualised. 1.42 1.36 2.92 1.62 Basic : (in ₹) (1.78)Diluted : (in ₹) 1.42 1.36 (1.78)2.92 1.62

## Notes:

- 1. The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective meeting held on 4th February, 2021. The Limited Review for the Results of quarter and nine month ended 31st December, 2020 as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, has been carried out by the Statutory Auditors.
- 2. The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. 3. The above is an extract of the detailed format of guarter and Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation
- 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarter & nine month ended 31st December, 2020 Financial Results are available on the websites of Stock Exchange(s) at www.nseindia.com/ www.bseindia.com and the Company's website at www.bslltd.com. By Order of the Board

for BSL LIMITED ARUN CHURIWAL

DIN: 00001718

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

CIN: L24302RJ1970PLC002266

Registered Office: 26, Industrial Area, Gandhi Nagar, Bhilwara - 311001 (Rajasthan)

• Tel.: (+91-1482) 249101-102, 245000 • Email: accounts@bslsuitings.com • Website: www.bslltd.com

A.K. SPINTEX LIMITED

Regd. Office: 14 K.M. Stone, Chittor Road, Biliya-Kalan, Bhilwara-311001 (Raj.) Ph: 9887049006, 9929139002 • Email: akspintex@gmail.com • Website: www.akspintex.com CIN: L17117RJ1994PLC008916

NOTICE FOR BOARD MEETING

Pursuant to Regulation29 (1) (a) read with Regulation 47 (1) (a) of SEBI (Listing Regulation and Disclosure Obligations) Regulation, 2015) it is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 13th February, 2021 at 11:00 A.M. at the registered office of the company at 14 K.M. Stone, Chittorgarh Road, Biliyan Kalan, Bhilwara-311001 to, inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Statements for the Quarter and Nine Month ended 31st December, 2020 along with other routine business.

Further, in terms of Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in dealing with Securities of the company, the Trading Window for transaction in securities of the company shall remain closed from 1st January 2021 to 15rd February, 2021 (both days inclusive) for insider for the purpose of announcement of aforesaid result. For A.K. SPINTEX LIMITED

Ashish Kumar Bagrecha Date: 4th February, 2021 Company Secretary & Compliance Officer

#### FORM NO. 5 **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL**

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow 226007 (Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh)

SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION O.A. No. 250/2020

(Summons to Defendant under section 19(3), of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial institutions Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules 1993) O. A. No. 250 of 2020

**Punjab National Bank** ....Applicant

Shri Ateek .....Defendant

Shri Ateek S/o Shri Rafeek Qureshi R/o House No. 113, Kassawan, Khurja

Distt. Bulandshahr .....Defendants In the above noted Application, you are required to file reply in Paper Book form in Two sets alongwith documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applican or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 12.07.2021 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Debts Recovery Tribunal, Lucknow

**GOVERNMENT OF UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR** OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER PMGSY JKRRDA 4TH FLOOR JKPCC COMPLEX PANAMA CHOWK JAMMU Phone No. 0191-2470284, Fax No. 0191-2479335 E-mail: cepmgsyjammu @gmail.com

Invitation of Expression of Interest for Empanelment of DPR Consulting Agency EOI No. 01/CE/PMGSY/J of 2021-22 Dated: 30-01-2021 Expression of Interest is invited from approved & eligible consulting agencies for prepara

tion of DPRs including Road survey, Traffic survey with automatic traffic counter, soil investigation and vetting of DPRs from State Technical Agency (HOD Civil, GCET Jammu) fo PMGSY Schemes in Districts of Jammu, Samba &Kathua. The Bidding Documents com prising of qualifying information, eligibility criteria and terms of reference of EOI and other details can be downloaded from https://www.pmgsytendersjk.gov.in/ as per schedule of dates given below:-Schedule of Dates

Date of publishing of Eol Document download/Sale start date 02-02-2021 from 5:00 PM to 13-02-2021 upto 4:00 PM 04-02-2021 at 11:30 AM in the office of Chief Engineer PMGSY (JKRRDA) Bid Submission closing Date 13-02-2021 upto 04:00 PM Date and Time of Bid opening (Technical)

Bid processing cost :- Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) Non-refundable in the shape of demand draft in favour of Chief Engineer PMGSY Jammu, payable at Jammu Sd/- (Er. ManzoorHussain) No. CEJ/PMGSY/17248-267

Dated:-30/01/2021

Chief Engineer PMGSY JKRRDA, Jamm

ansal API Building Lifestyles Since 1967 **Ansal Properties & Infrastructure Limited** 

Corporate Identity Number: L45101DL1967PLC004759

Regd. Office: 115, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 Mobile: 91-9871053419, Tel.: 011-23353550, 66302269/72 Website: www.ansalapi.com; Email: shareholderservice@ansalapi.com

Notice is hereby given that pursuant to the compliance of Regulations 29, 33 and 47 o SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations"), please be informed that a meeting of the Board of Directors of the Company shall be held on Thursday, the 11th February, 2021, to consider and approve, inter-alia, the Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the 03<sup>rd</sup> guarter/nine months ended on the 31<sup>st</sup> December, 2020 of the Financial Year 2020-21 This is being subjected to Limited Review by the Statutory Auditors of the Company. Further the Trading Window in respect of aforesaid meeting was closed from the

01st January, 2021 and shall remain closed till the completion of 48 hours after the declaration of aforesaid quarterly Un-Audited Financial Results, in terms of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended. This information is also available at the website of the Company i.e. www.ansalapi.com

and also at the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com).

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

Date: 04.02.2021

Place: New Delhi

Particulars

(Abdul Sami) General Manager (Corporate Affairs) & Company Secretary M. No. FCS-7135

BERVIN INVESTMENT & LEASING LIMITED

#### Regd. Office: 607, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 CIN: L65993DL1990PLC039397, Web: www.bervin.com, Email: secretary@bervin.com Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the

Quarter Ended 31st December, 2020 (Amount, in Lacs Quarter ended Year ended

31.03.2020 31.12.2020 31.12.2019 Unaudited Unaudited Audited 177.14 Total Income from Operations 62.41 Net Profit/(Loss) for the period before tax before Exceptional and/or Extraordinary items) 8.59 59.90 83.41 Net Profit/(Loss) for the period before tax 8.59 59.90 after Exceptional and/or Extraordinary items 83.41 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items 8.59 59.90 66.62 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax) and other Comprehensive Income (after tax)) 8.59 59.90 66.62 589.81 589.81 589.81 Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve 1,282.25 as shown in the Audited Balance Sheet of 997.85 997.85 the previous year) 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2020 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (For continuing and discontinued operations) (1) Basic 1.02 (2) Diluted 1.02 1.41

NOTES:

 No Leasing Business has been undertaken during the quarter. The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken or

record and approved by Board of Directors at their meeting held on February 04, 2021 Figures for the quarter ended 31st December, 2019 and year ended 31st March, 2020 have been regrouped wherever necessary to make them comparable with figures of the current quarter ended 31st December, 2020.

As the Company is engaged in a single primary business segment, the disclosur requirement of Accounting Standard (AS-17) 'Segment Reporting' notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act 2013 are not applicable.

 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges for the Quarter Ended 31 December, 2020 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 The detailed format of the same is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) & Company's website (www.bervin.com) For and on behalf of the Board of Directors

> S. K. Murgai (Director) DIN: 00040348

8 = D

Dated: 04th February, 2021

Place: New Delhi

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank

Branch: 5E/3, B.P. Neealm Railway Road, NIT Faridabad - 121001 POSSESSION NOTICE (Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules 2002) Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of Union Bank of India (E-Corporation Bank) under the Securitisation, Reconstruction

section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued a demand notice dated calling upon the borrower/guarantors on below mentioned date, to repay the amount mentioned in the notice, within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantors and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 02™ Day of February of the year 2021. The borrower/guarantors in particular and the Public in General is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the

property will be subject to the charge of the Union Bank of India (E-Corporation Bank) for an amount mentioned herein below beside with future interest and other expenses, cost, charges etc against the under mentioned accounts. The Borrower attention is invited to provision of section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Description of Immovable Property Name of the Borrowers / Guarantors **Outstanding Amount** 

Borrower: Rs 43,66,211.63 Property measuring 777 Sq Yards forming part of Demand Notice M/s K D Khera & Co Pvt. Ltd. Rupees Fourty Bunglow Plot no 3-B/16 situated at NIT 17.07.2020 3B-16 B.P., NIT Faridabad-121001 three lacs sixty six Faridabad-121001. thousand two hundred Guarantors: 1. Mr. LN Khera, 2. Mr. CP Khera, eleven and paisa sixty Date of

Legal Heirs of late Sri Harish Khera: 3. Mrs. Neelam Khera, 4. Ruchika Khera. Legal heirs of three only) plus Possession

late Sri Jagdish Khera: 5. Mr. Mukesh Khera, 6. Mrs. Saroj Khera, 7. Mr. Deepak Khera, 8. Mrs. interest thereon.

Sonia Grover, 9. Ms. Sonali Joshi, Common Address for all: 3A-148, NIT Faridabad-121001

WISEC GLOBAL LIMITED NH-II, 2ND Floor, C -Block Community Center, Naraina Vihar, New Delhi-110028

Pursuant to the provision of Clause 49 (I) (C) of the Listing Agreement, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th February 2021, to inter-alia, consider, approve and take on record the un audited result for the guarter ended on 31 December 2020.

Rakesh Rampal Whole Time Director Place: New Delhi

## **PUBLIC NOTICE**

Hanuman Singh Gautam S/o Sh. Dilip Singh Gautam, House No. 128/522, Y-1, Kidwai Nagar Kanpur Do Hereby Declared That Original Documents of My House, Lease Deed Bearing No. 1772, Mus No 1773 Dated 01-12-1990 & Free Hold Deed No. 7438 & 7439, Dated 29-12-2000 & Other Documents have been Destroyed at Locker Of SBI Kaushalpuri Kanpur.

SATKAR FINLEASE LIMITED Regd. Office: 829, Laxmideep Building, 8th Floor, District Centre, Next To V3S Mall. Laxmi Nagar, Delhi 110092 CIN: L65910DL1996PLC075394 NOTICE

Notice is hereby given that Board Meeting of the

Company will be held on Wednesday, 10th February, 2021 at the Registered Office of the ompany, pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended 31" December, 2020. copy of the said notice shall also be available at the company's website www.satkarfinlease.in and

on stock Exchange website www.bseindia.com For Satkar Finlease Limited Place : Delhi Roop Singh Date: 04.02.2021 Whole Time Director

NIRAJ ISPAT INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: 5140-41/34, F/F Chaudhary Market GaliPetiWali, RuiMandi, Sadar Bazar, North Delhi- 110006 (E): nirajispatindustries@gmail.com, (W): www.nirajispat.in

CIN: L27106DL1985PLC021811,

Phone: 011-23551821. NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday,12\*February, 2021 at 01:00 P.Mat the Regd, Office of the Company, interalia, to consider and take on record the Unaudited Financia Results for the Quarter Ended 31st December. 2020 and any other businesses as may be considered necessary.

For NirajIspat Industries Limited (CHAITANYA CHAUDHRY) Date: 04.02.2021

New Delhi KD- 46, Kavi Nagar, Ghaziabad- 201002,

AND SOFTWARE LIMITED Regd. Office.: Flat No. 901B. Devika Tower 6, Nehru Place New Delhi -110019 Corp.Office: 610/611, Nirmal Galaxy

Avior, L.B.S Road, Near Johnson &

Johnson, Mulund(W), Mumbai - 400080

NOTICE

INTEGRA TELECOMMUNICATION

Contact: 011-4100327. E-mail: info@integratelesoftware.com Website: www.integratelesoftware.com CIN: L74899DL1985PLC020286

Pursuant to Regulation 29 read with regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be heldon Friday, 12th day of February, 2021at 4:00 PM to inter alia, to consider and approve the

December, 2020. The notice is also available on Company's website www.integratelesoftware.com and website of the Stock Exchange

Standalone Un-Audited Financial Results

of the Company for the guarterended 31st

www.bseindia.com. For Integra Telecommunication and Software Limited

Jeet Rajen Shah Date: 04.02.2021 Director

KRA LEASING LIMITED CIN: L65993DL1990PLC039637

E: kraleasing1990@gmail.com;

W: www.kraleasing.com,

Regd. Office: C-20, SMA, Co-Operative

Industrial Estate, G T Karnal Road, Delhi-110033 Corp. off- Plot No.3, Sector -11, IMT Manesar Gurugram, Haryana- 122050; Ph. No.: 0124-4746817

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, February 12th, 2021 at 03:00 p.m. at the Corporate Office of the Company at Plot No-03, Sector-11, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122050 to inter alia, consider, approve and take on record the Consolidated and Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and Nine Months ended December 31st, 2020 and other

"Equity Shareholders of the company are invited to send their questions/agendas, if any, to be discussed with the board in their ensuing meeting in word file kraleasing1990@gmail.com along with your name, address, Folio No./DP ID and Client ID along with number of shares held". Notice of Board meeting is available on Notice of Board meeting is available on Company's

website www.kraleasing.com and stock

businesses as per agenda.

exchange website viz www.msei.in. By order of the Board For KRA Leasing Limited

Date of

Ridhima Gupta Company Secretary cum compliance Officer Place: Gurugram Memb. No.61965 Date: 04.02.2020

Obligations and Disclosure of Financial Assets and Enforcement of Security Interest. Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under Requirements), Regulations 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors will be held on Friday 12th February, 2021 inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Result for the Quarter ended on 31st December, 2020 along with other business if any.

> be accessed at Stock Exchange website as www.bseindia.com.

02.02.2021 Date: 04.02.2021 Atul Kumar Agarwal (Director) Place: Delhi

Date: 05/02/2021 Place: Faridabad Authorised Officer: Union Bank of India New Delhi

isting Obligations and Disclosures Requirement) egulations, 2015, Notice is hereby given that ne Meeting of the Board of Directors will be held in Wednesday, 10th February, 2021 at the egistered Office of the company to consider and prove the Unaudited Financial Results for the Quarter ended on 31" December, 2020. copy of the said Notice and the Financial Results For Wisec Global Limited shall also be available at the Company's website

at www.funnysoftwarelimited.com and on Stock Exchange Website at www.bseindia.com For FUNNY SOFTWARE LIMITED RAM NARESH

Date: 04.02.2021 WHOLE TIME DIRECTOR

Leading Leasing Finance And Investment Company Limited Regd. Office: 611, Sixth Floor, Pragati Tower 26 Rajendra Place Opp. Metro Station New Delhi 110008 (E) leadingleashing@gmail.com, (W)www.llfiltd.com CIN: L65910DL1983PLC016712,

Phone: 011-25876635

NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Eisting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on riday,12\*February, 2021 at 03:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, interalia, to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter ended 31" December, 2020 and any other businesses may be considered necessary.

By order of the Board For Leading Leasing Finance and Investment Company Limited Place: New Delhi (Ami Jinen Shah) Whole-Time Director DIN: 06792048 8, Giriraj, 2<sup>nd</sup> Floor, Khotochiwadi, V.P. Rd., Mumbai, 400004, Maharashtra

INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED Registered Office: Statesman House 148, Barakhamba Road, New Delhi 110001 CIN- L74899DL1993PLC053034 NOTICE Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 13th February, 2021 at 11:00 A.M. inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended on 31" December, 2020, The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.InternationalsecuritiesItd.com and the website of the Stock Exchange Metropolitan Stock Exchange of India Ltd - www.msei.in. For INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Rajeev Kumar Gupta

Whole Time Director

DIN-00039399

DIRECTOR

Place: New Delhi Date: 04.02.2021 By order of the Board

> INCEPTUM ENTERPRISES LIMITED Regd. Office: Office No. JF-01, Property No. F-40, Jagat Puri, Delhi - 110040 CIN: L51909DL1990PLC042445 votice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the company will be held on

to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. A copy of the said notice shall also available at the Company's website at www.angelsenter.com and

Wednesday, 10th February, 2021 at the

Registered Office of the company to consider and

approve the Unaudited Financial Results for the

Quarter ended on 31th December, 2020, pursuant

on stock Exchange website at www.bseindia.com For Inceptum Enterprises Limited VINAYA PRAKASH Date: 04.02.2021

Place : New Delhi

PORSCHE CAPITAL MARKET LIMITED CIN: L65993DL1992PLC048483 Regd. Office: K H- 810, 2ND Floor, Mahipa Pur Extension (Near Maruti Work Shop), New Delhi- 110037 Website: www.porschecapital.com

Email: porche\_capital@yahoo.in

NOTICE Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligation and neeting of the Board of Directors of the Compan vill be held on Wednesday, 10th February, 202 to consider and take on record the Unaudited nancial Results for the guarter ended 31 December, 2020 among other things. A copy of the said Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website at www.porschecapital.com and on Stock Exchange Website at www.msei.in

For PORSCHE CAPITAL MARKET LIMITED RAJAN TIRKEY Place : Delhi Date: 04.02.2021 DIRECTOR

ETT LIMITED CIN: L22122DL1993PLC123728 Regd. Office: 17, Hemkunt Colony,

Email: secretarial@ettgroup.in Web: www.ettgroup.in

New Delhi - 110 048

T & F: +91 11 4656 7575

NOTICE Notice is hereby given in terms of Regulation 29(1)(a) of SEBI (Listing) Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, February 11, 2021 at 4:00 P.M. at UB. Express Trade Towers 3. Plot no. 79. Sector 34. Gurugram, Haryana - 122 001 interalia, to consider and take on record the unaudited financial results of the

For ETT Limited Date: 04.02.2021 Puniti Sharma Place: New Delhi Compliance Officer

TRIDEV INFRAESTATES LIMITED

(Formerly Known as Ashutosh Paper Mills Limited)

(CIN: L65100DL1988PLC033812)

Regd. Office: 269, G/F, Triveni Apartment

Swayam Sewa CGHS Limited,

December 31, 2020.

Company for the quarter ended

Jhilmil Colony, Delhi -110095 E-Mail: ashutoshpapermills@gmail.com Website: www.tridevinfraestates.in NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with

Regulation 47 of SEBI (Listing

The information contained in this notice available on the Company's website at

For Tridev Infraestates Limited

www.tridevinfraestates.in and may also

financialexp.epap.in

Place: Kolkata (W.B.)

Dated: 4th February, 2021

NOTICE Pursuant to Regulation 29 of the SEBI

CIN: L74110DL1984PLC018467 Regd. Office: 205 Aggarwal Corporate Heights Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034

By order of the Board

Date: 04.02.2021


CIN: L65991PB1985PLC006414

Ph.: +91-11-45618800-900, Fax: +91-11-25893719/20 E-mail: pcl@paramountcables.com, Website: www.paramountcables.com NOTICE

quarter ended on 31" December, 2020. Arrangement has also been made for participation of Board Members

For Paramount Communications Ltd

# and nine months ended December 31, 2020



भारत सीट्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

CIN: L34300DL1986PLC023540

वेबसाईटः www.bharatseats.com, ईमेलः seats@bharatseats.net

फोन +91-9643339870-74, फैक्स: 0124-2341188 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

क्रम	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ महीने		समाप्त वर्ष
सं.		31.12.2020 ( अनंकेक्षित )	30.09.2020 ( अनंकेक्षित )	31.12.2019 ( अनंकेक्षित )	31.12.2020 ( अनंकेक्षित )	1410.100.000000000000000000000000000000	31.03.2020 ( अंकेक्षित )
1.	परिचालनों से कुल आय	17,690.45	15,043.24	14,465.93	34,905.18	46,569.04	59,065.88
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	884.91	442.24	315.58	(77.71)	1,284.33	1,222.00
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	884.91	442.24	315.58	(77.71)	1,284.33	1,222.00
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	661.97	330.67	233.26	(58.86)	1,314.11	1,251.89
5.	अविध हेतु कुल व्यापक आय [अविध हेतु (कर के बाद) लाभ एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल]	662.32	331.03	237.99	(57.80)	1,328.26	1,253.30
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00
7.	अन्य इक्विटी (आरक्षित) वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)	_		_	_		10,702.65
8.	आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)(रु. में)			6			
	क) मूल (रु.)	2.11	1.05	0.74	(0.19)	4.19	3.99
	ख) तरल (रु.)	2.11	1.05	0.74	(0.19)	4.19	3.99
_							

सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन रखा गया है।

क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाईट www.bharatseats.com पर उपलब्ध है।

ख) भारत सीट्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के उपरोक्त वित्तीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली 2015 के नियम

3 तथा कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2016 तथा उसके बाद संबंधित संशोधन नियमावली के साथ पठित कम्पर्न अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट रूप में भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया गया है। ग) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 4 फरवरी, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये। 31 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा अवधि के लिये ''भारत सीट्स लिमिटेड'' के उपरोक्त वित्तीय परिणामें को इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिब्यू इंगैजमेन्ट्स पर मानक (एसआरई) 2410 के अनुसार कम्पनी के

निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से

(रोहित रेलान) स्थानः गुरुग्राम तिथि: 4 फरवरी, 2021 अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड D-HDB HANGE 2002 के अंतर्गत • पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड, खसरा नं. 47, सामने दशहरा ग्राउण्ड, बुदेला, निकट ऑक्सफोर्ड स्कूल, ई-नीलामी बिक्री सूचना विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 कम्पनी के बकाये की वसूली के लिये ''जैसा है जहाँ है आधार'' तथा ''जो भी वहाँ है आधार'' पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्न ऋण खाताओं में विर्त्त

परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सचना के अनसार एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्न सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

1. ऋणधारक∕को एवं गारन्टर∕रों का नाम एवं पता 2. कुल बकाया + ब्याज	सम्पत्ति का विवरण	<ol> <li>ई-नीलामी की तिथि एवं समय</li> <li>ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय</li> </ol>	2. सम्पत्ति का ईएमडी
मैसर्स जे.बी.के. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके निदेशकों के माध्यम से) बी-21-22, सेक्टर-16, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 साथ ही मैसर्स जे.बी.के. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके निदेशकों के माध्यम से) बी-30, गामा-I, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 साथ ही मैसर्स जे.बी.के. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके निदेशकों के माध्यम से) 99, पटपड़गंज, नई दिल्ली-110091, श्रीमती किवता चौधरी, बी-21-22, सेक्टर-16, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 साथ ही श्रीमती किवता चौधरी, बी-30, गामा-I, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 साथ ही श्री संजय कुमार, बी-21-22, सेक्टर-16, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 साथ ही श्री संजय कुमार, बी-30, गामा-I, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 साथ ही श्री मनोज कुमार चौधरी, बी-30, गामा-क ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 साथ ही श्री मनोज कुमार चौधरी, बी-30, गामा-क ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, मैसर्स आर.डी. फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड (इसके निदेशकों के माध्यम से), बी-21-22, सेक्टर-16, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, मैसर्स आर.डी. फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड (इसके निदेशकों के माध्यम से), 1110, मेन बाजार, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055, मैसर्स एयरविल बिजिनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (इसके निदेशकों के माध्यम से), एम-167, विकासपुरी, निकट सिंडीकेट बैंक, नई दिल्ली-110018 ऋण सं. 1039112. बकाया राशि: रु. 61252845/- (रुपये छ: करोड़ बारह लाख बावन हजार आठ सौ पैंतालीस मात्र), ऋण खाता सं. 1039112 के माध्यम से 23.11.2017 तक और पूर्ण भुगतान की तिथि तक 18% वार्षिक दर से भावी ब्याज, आकरिमक प्रभारों, लागतों आदि सहित।	21-22, सेक्टर-16, निकट सेक्टर-16, निकट सेक्टर-16 मेट्रो स्टेशन, नोएडा-201301 का सम्पूर्ण भाग, माप 10953 वर्ग फीट तथा आर.डी. फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अभिलेखित, सीमाएं : उत्तर : सड़क, दक्षिण : प्लॉट सं. 20, पूर्व : 50 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : कोटक बैंक	24.02.2021 को 10.30 बजे पूर्वा. से 11.00 बजे पूर्वा तक 5 मिनट के विस्तार सहित। 10.30 बजे पूर्वा. से 11.30 बजे पूर्वा. तक आगे 5 मिनट के विस्तार सहित (2) केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि : 19.02.2021 को 5.00 बजे अप. तक। (3) निरीक्षण की तिथि : 17.02.2021 को 1.00 बजे अप. से	रु. 9,66,15,000/ (रुपये नौ करोड़ छियास लाख पन्द्रह हजार मात्र) ज.ध.रा. रु. 96,61,500/- (रुप छियानबे लाख इकस

इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पूछताछ करें तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी दृष्टियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतृष्ट कर लें। सभी सांविधिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो का भुगतान सफल बोलीदाता/संभावित क्रेता को ही करना होगा। उनके स्वयं के हित में बोलीदाता/संभावित क्रेताओं से अनुरोध है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व उपरोक्त के संदर्भ में तथा संपत्ति से संबंधित अन्य विवरणों के विषय अपने स्वयं के हित में जांच करके संतुष्ट हो लें। ऑन लाइन निविदा/ नीलामी के नियम एवं शर्तें

(1) यह नीलामी वेबसाईटः https://www.bankeauctions.com या Auction Tiger Mobile APP द्वारा 5 मिनट के आगे के विस्तार के साथ ऊपर तालिका में वर्णित तिथि को "अॉन लाइन ई नीलामी" बोली होगी। (2) इच्छुक संविदाकार वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com (यूजर आईडी और पासवर्ड (https://www.bankeauctions.com) के साथ नाम के

पंजीकरण द्वारा निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) पर अपने लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से ज.ध.रा. जमा करेंगे। ज.ध.रा. उपर्युक्त खाते में एनईएफटी वे माध्यम से देय होगी। वेबपोर्टल में संविदाकारों द्वारा पंजीकरण (एक बारगी) के पश्चात, इच्छुक क्रेताओं/संविदाकारों को संविदा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व वेब-पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ अपलोड करनी होंगी-(i) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान या डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति, (ii) पैन कार्ड की प्रति, (iii) पहचान/पते का प्रमाण (केवाईसी) जैसे मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की स्वप्रमाणित प्रति, जिसके बिना संविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी विधिवत भरकर एवं हस्ताक्षर करने के उपरान्त परिशिष्ट II एवं III (जिसे वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com से डाउनलोड किया जा सकता है) की स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड करना अपेक्षित है। इच्छुक संविदाकार जो लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करने, डाटा अपलोड करने, संविदा जमा करने, ई-संविदा प्रक्रिया आदि का प्रशिक्षण लेने में सहायता चाहते हैं वे मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा.लि., उद्योग विहार, फेज-II, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग सं. 301, गुरुग्राम, हरियाणा, पिन 122015, ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com, सर्पोट हेल्पलाइन नं. 124-4302020/21/22/23, 7291981124/1125/1126, बिक्री पूछताछ sales@bankeauctions.com. 7291981129 तथा सम्पत्ति से सम्बन्धित पृछताङ के लिए अधिकृत प्राधिकारी श्री विकास आनन्द, मोबाइल नं. : 9711010384, ई-मेल आईडी : vikas.anand@hdbfs.com. परनीत सिंह; मोबाइल नं. : 9720029337 ई-मेल आईडी : lm.vikaspuri@hdbfs.com तथा श्री विशाल रितपुरकर मोबाइल नं. : 9833671006, ई-मेल आईडी : vishal.ritpurkar@hdbfs.com से सोमवार से शनिवार तक कार्य घण्टों के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।

इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को ऊपर वर्णित तिथि एवं समय को (कृपया ऊपर तालिका में वर्णित विवरण देखें) ''एचडीबी फाइनांसिल सर्विसेस लिमिटेड'' के पक्ष गं देय पीएआर/नई दिल्ली में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर द्वारा अथवा "HDBFS GENERAI COLLNS", खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड- HDFC0000021, एमआईसीआर कोड: 500240002, शाखा: लकडी का पुल, हैदराबाद कं खाता में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) की राशि जमा करना होगा तथा https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा सेवा प्रदाता से निशुल्क यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अधोलिखित दस्तावेजों की प्रतियों को अपलोड करना होगाः 1) एनईएफटी/ आरटीजीएस चालान/ डीडी/ पे आर्डर की प्रति. 2) पैन कार्ड की प्रति, तथा 3) आवास के प्रमाण (पास्पोर्ट, ड्राइविंग लाइसैन्स, वोटर आई-कार्ड या आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पंजीकृत लीव लाईसैंस अनुबंध) की प्रति जिसे ऊपर तालिका में वर्णित रूप में ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि को या पूर्व वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा तथा साथ ही उन्हें हार्डकॉपी ऊपर वर्णित शाखा में जमा करना होगा।

(4) बोली के साथ ऊपर वर्णित तिथि को या उससे पूर्व ''एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड'' के पक्ष में देय, पीएआर/नई दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट/ एं आर्डर द्वारा या "HDBFS GENERAL COLLNS", खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड-HDFC0000021, एमआईसीआर कोड 500240002, शाखाः लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी (आरक्षित मुल्य के 10% के बराबर) को संलग्न किया जायेगा। विधिवत रूप से नहीं भरी गई अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त की गई बोलियों को अवैध माना जायेगा तथा तत्काल निरस्त किया जायेगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। बोलीदीता द्वारा एक बार बोली जमा कर देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो उनके द्वार

जमा की गई ईएमडी आगे उपचार के बिना जब्त कर ली जायेगी। लेकिन, असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी। (6) जमा की गई बोली राशि रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की वृद्धि मृल्य के साथ आरक्षित मृल्य से ऊपर होगी तथा बोलीदाता रु. 10,000/- (रुपये दस हजा

मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव के सुधार कर सकते हैं। सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मुल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा। सफल बोलीदाता को तत्काल किन्तु अधिकतम अगले कार्य दिवस तक ''एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड'' के पक्ष में देय डिमांड डाफ्ट जो पीएआर/दिल्लं में देय हो अथवा "HDBFS GENERAL COLLNS", खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड-HDFC0000021, एमआईसीआर कोड 500240002, शाखाः लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा 25% बिक्री मूल्य (ईएमडी सहित) का भुगतान करना है तथा शेष बिक्री का भगतान करना है तथा शेष बिक्री मुल्य का भगतान सफल बोलीदाता को कम्पनी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। इच्छक बोलीदाता द्वारा प्रदत्त ईएमडी के ही साथ बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं अथवा कोई चूक करते हैं तो

जमा की गई ईएमडी या 10% बिक्री मूल्य, जैसा भी मामला हो, जब्त कर ली जायेगी। (8) बिक्री की शर्तों के अनुपालन पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में ''बिक्री प्रमाणपत्र'' जारी किया जायेगा। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण चार्जेज

कान्वीयन्यस, टीडीएस आदि से संबंधित सभी खर्चे का वहन क्रेता को ही करना होगा। यह कम्पनी प्रस्तावित सम्पत्ति के संदर्भ में किसी प्राधिकरण से अथवा प्रचलित किसी भी कानन के अंतर्गत स्वीकृत/एनओसी प्राप्त करने अथवा अन्य कोई बकाय

देयताओं जैसे बकाया पानी/ बिजली शुल्क, सम्पत्ति कर अथवा अन्य चार्जेज, यदि कोई हो, के लिये कोई उत्तरदायी नहीं लेता है। (10) सफल बोलीदाता को किसी विकास प्राधिकरण के लिम्बत बकाये, यदि कोई हो/ करों/ नगर निगम अथवा अन्य किसी प्राधिकरण/एजेन्सी के उपयोगिता बिलों तथा

स्टाम्प शुल्क/ बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिये पंजीकरण शुल्क आदि सहित सभी खर्चे का वहन करना होगा। (11) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये किसी या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित/ रद्द करने या बिना किसी पूर्व सुचना

के बिक्री की किसी भी शर्तों को संशोधित करने का सम्प्रभ अधिकार प्राप्त है। अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीदाता को की जायेगी। लेकिन, प्राधिकत अधिकारी को यदि वे आवश्यक समझें इंटर-से-बिडिंग की अनुमति अपनी इच्छा से देने का अधिकार प्राप्त है।

( 12 ) सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में कंपनी को कंपनी को छोड़कर बेची जा रही संपत्ति पर किसी प्रकार के अधिभारों की जानकारी नहीं है। लेकिन, इच्छुक बोलीदाता अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति की स्वयं गणना कर लें। यह कंपनी उपरोक्त संपत्ति के फिटनेस के संदर्भ में कोई गारंटी नहीं देती है अथवा कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

अन्य किसी भी जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी उक्त संपत्ति के संदर्भ में सरकार अथवा किसी अन्य किसी व्यक्ति के प्रति किसी चार्ज, लिएन, अधिभारों, संपत्ति कर अथवा अन्य किसी बकाए के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

(13) आगे, उसकी वास्तविक वसूली तक लागू होने वाले, सूचना में वर्णित बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागतों जो देय एवं बकाया

(14) एतदहारा ऋणधारक(कों)/ मार्टगैजर(रों) को सचित किया जाता है कि बिक्री के समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें तथा वे बिक्री के नियमों एवं शर्तों के अनुसार यहां उपरोक्त अचल संपत्ति की खरीद के लिए इच्छुक क्रेता/ खरीदार को प्रस्तुत कर सकते हैं।

(15) वेबसाईट पर प्रस्ताव/निवदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर नीलामी प्रक्रिया में ऑन-लाइन ई-नीलामी भागीदारी अनिवार्य है। बोलीदाता के सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए वेबसाईट https://www.bankeauctions.com देखें। ऑन लाइन बोली संगठन की उक्त वेबसाईट पर आयोजित होगी तथा निविदा दस्तावेज के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। निविदा दस्तावेज तथा नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाईट https://www.bankeauctions.com से डाउनलोड की जा सकती है अथवा एचडीवी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के संबंधित शाखा से प्राप्त की जा सकती है। संलग्नकों के साथ (यटीआर नंबर उल्लेख करते हए) ऑन लाइन जमा की गई बोली प्रपत्र की प्रति विकास आनंद मोबाईल नं. 9711010384 के पास एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड, पता-खसरा नं. 47, द्वितीय तल, सामने दशहरा ग्राउण्ड, विकासपुरी नई दिल्ली-110018 में ऊपर वर्णित तिथि एवं समय में या उससे पूर्व जमा की जा सकती है (कपया ऊपर तालिका में वर्णित विवरणों को देखें।)

(16) संपत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है आधार'' पर की जाएगी तथा इच्छुक बोलीदाता कंपनी के चार्जेज के अतिरिक्त किसी प्राधिकरण के संपत्ति प अधिभारों, चार्ज तथा सांविधिक बकायों के विषय में अपनी गोपनीय जांच कर लें तथा अपनी बोली जमा करने से पूर्व टाईटल, विस्तार, गणवत्ता, संपत्ति की मात्रा के विषय में स्वयं को संतष्ट कर लें। नीलामी पर रखी गई संपत्ति के संदर्भ में किसी प्रकार के दावे, संपत्ति पर चार्जेज, अधिभारों अथवा अन्य किसी मामले पर ऑन लाइन बोली जमा करने के बाद तथा किसी भी चरण में कोई विचार नहीं किया जाएगा। यह कंपनी क्षतियों अथवा एविक्शन कार्रवाई आदि सहित किसी भी विषय के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। इच्छक बोलीदाता को इस संदर्भ में टेनेन्ट्स के साथ ही साथ कम्पनी की क्षति की पूर्ति भी करनी होगी। क्रेता केवल कानून के अनुसार ही

टेनेन्ट्स/सेटलमेंट के एविक्शन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यह कंपनी कैविएट एम्प्टर के सिद्धांत की सेवा में विश्वास रखती है। ( 17 ) यह प्रकाशन इस सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज एवं खर्चे के साथ अपनी संपूर्ण देयताएं निष्पादित करने तथा उपरोक्त बकाए राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2), 8 (6) एवं नियम 9 के अनुपालन में उपरोक्त ऋण खाता के ऋणधारक/ मार्टगैजर, गारन्टरों के लिए 15 (पन्द्रह) दिवसीय सचना भी है जिसमें असफल रहने पर उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रतिभत परिसंपत्तियों की बिक्री कर दी जाएगी

यदि अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशनों के बीच कोई असमानता होती है तो अंग्रेजी समाचार पत्र को क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशनों के बीच कोई असमानता होती है तो अंग्रेजी समाचार पत्र को क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र कर तरजीह दी जाएगी तथा विसंगति दूर करने के लिए उसे निर्णायक कॉपी माना जाएगा। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व ऋणधारक/गारन्टर कंपनी की बकाया देयता का भुगतान कर देते हैं तो नीलामी रोक दी जाएगी।

विस्तृत विवरणों तथा पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी, एचडीबी फाइनांसियल सर्विस लिमिटेड, श्री विकास आनंद : 9711010384 से संपर्क करें। स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 03.02.2021 प्राधिकृत अधिकारी, एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - I, DELHI 4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING. PARLIAMENT STREET, NEW DEL HI-110001. OA NO.: 1067/2018 ICKLI BANK LTD...... Applicant Versus ASHOK KUMAR & ORS.... Respondents

Versus ASHOK KUMAR & ORS....Respondents
To,
1. Ashok Kumar Sio. Sh. Barwari Lal Rio. G.B.-18-B. Pul
Prohladpur, Near Toll Barner, Jeitpur, South Deith.—110044
Also at: Ashok Kumar Sio. Sh. Barwari Lal Flat No. 1706, 16th
Floor, Tower-O, Bulland Elevates, Plot No. GH-3A. Sector-16C.
Greeniar Noide West -201307, Ulter Pradesh.
2. Restra Devi. Wio. Ashok Kumar. Rio. G.B.-18-B. Pul
Prahladpur, Near Toll Barner, Jaipur, South Deith.—110044
3. Mis. Bulland Busidach Pvt. Ltd. having its Registered Office
at: A-2, Bulland Busidach Pvt. Ltd. having its Registered Office
at: A-2, Bulland Busidach Pvt. Ltd. having its Registered Office
at: A-2, Bulland Busidach Pvt. Ltd. having its Registered Office
at: A-2, Bulland Busidach Pvt. Ltd. having its Registered Office
at: A-2, Bulland Busidach Pvt. Ltd. having its Registered Office
thing at: Ashok Registered Polity Six Laos Eighty Nine.
Thousand Four Hundred Fifty Nine. Only) against you and
whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal
that it is not possible to serve you in ordinary very. Therefore, this
notice is given by adventisement directing you to make
appearance before Ld. Registrar on 10.02.2021 at
10.30A. M. for further details kindly visit. DRT website
www.etribunst.gov.in.Phone.Number.011-23748-473).
Take notice their in case of your biture to appear on the above
mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and
decided in your absence.
Due to engoing Pandemic abustion, all the matters will be taken
up through Video Conferencing and for that purpose- (I) All the
Advocable Lisants shall download the Cisco Webex
application is officer. It shall be aveitable one day prior
to the next date of DRT Officer-It shall be aveitable one day prior
to the next date of DRT Officer-It shall be aveitable one day prior
to the next date of DRT Officer-It shall be aveitable one day prior
to the next date of DRT Officer-It shall be aveitable one day prior
to the next date of DRT Officer-It shall be aveitable one day prior

thic Notice Head. (iii) In any exigency qua that, the located ligants can contact the concerned official at Ph. No. 1748469

By Order of this Tribunal For Registrar

एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड

**पंजीकृत करपांतमः** ई-8/1, निवर गीता भवन मंदिर गालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 कॉर्पोरेट कार्याक्षयः 08 फलोर, प्लॉट नं0. 19 व 20, सेक्टर-142, चोएडा-201304, वृ.पी. कोना: 0120 esa1e00, ईनेका: coporate@pirgrosp.in THE WWW plangroup in

सेबी (चचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेदाएँ) विनियमावलं 2015, के विनियम 28 एवं 47 के अनुसरण में, एतदहास सुवि किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंजल की बैतव बुक्तवार, 11 फरवरी, 2021 को आयोजित की जाएगी जिसमे प्रनय बातों के साथ, 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाई और नौगाही के लिए अनंकेशित वितीय परिणामों पर निचार अनुमोदन और रिकॉर्ड करना है। (www.piogroup.in और www.bseindia.com पर जाएँ।।

नारज इस्पात इंडस्ट्राज लिमिटड पंजी. कार्यालय: 5140-41/34, एफ/एफ चौधरी मार्केट गली पेटी वाली, रुई मंडी, सदर बाजार, उत्तर दिल्ली-110006 (E) nirajispatindustries@gmail.com, (W) www.nirajispat.in

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 201 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन मे एतदृद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को 1.00 बजे अप. मे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही वे अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य

> बोर्ड के आदेश नीरज इस्पात इंडस्टीज लिमिटेड के लिए

( चैतन्य चौधरी स्थानः नई दिल्ली तिथि: 4.2.2021 DIN: 06813394

INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Barakhamba Road, New Delhi 110001 CIN- L74899DL1993PLC053034

guarter ended on 31" December, 2020. The information contained in this notice is also

available on the Company's website at www.InternationalsecuritiesItd.com and the website of the Stock Exchange Metropolitan Stock Exchange of India Ltd - www.msei.in.

Rajeev Kumar Gupta Place: New Delhi Whole Time Director Date: 04.02.2021

लीडिंग लीजिंग फाइनीस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 611, छठा तल, प्रगति टॉवर, 26 राजेन्द्रा प्लेस, मेट्टो स्टेशन के सामने,

(E) leadingleashing@gmail.com, (W) www.llflltd.com (CIN): L65910DL1983PLC016712,

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनिय 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जात है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को 3 00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिस अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के अंकेक्षित वित्तीर परिणामों तथा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य व्यवसायों पर विचार कर

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 04.02.2021

बोर्ड के आदेश लीडिंग लीजिंग फाइनांस ए न्द्रेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के लि

> (एमि जिनेन शाह पर्ण-कालिक निदेशव DIN: 0679204 8 गिरिराज, 2रा तल, खोटोचिवाड़ी, बी.पी.रोड, मुम्बई-400004, महार

इंटीग्रा टेलीकम्यनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड CIN: L74899DL1985PLC020286

6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 संयुक्त कार्यालयः 610/611, निर्मल गैलेक्सी, एवियर एल.बी.एस. रोड़, नजदीक जॉनसन एंड जॉनसन, मुलुन्द (डब्ल्यू), मुम्बई-400080, संपर्क: 011-4100327, ई-मेलः info@integratelesoftware.com वेबसाइटः www.integratelesoftware.com

## सुचना

अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुवर्ती एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के स्टैंडएलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामी पर परस्पर विचार और अनुमोदन के लिए कंपनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को अपराहन 4.00 बजे आयोजित होना

सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.integratelesoftware.com तथा शेयर बाजार की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कते इंटीग्रा टेलीकम्युनिकेशन एंड

तिथि: 04.02.2021 निदेशक

(CIN: L65100DL1992PLC047327) पंजी, कार्यालयः 224, जी/एफ स्वयं सेवा, को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, झिलमिल दिल्ली पर्वी, दिल्ली-110032 ई-मेल : svamsoftwareltd@gmail.com

वेबसाइट : www.svamsoftwareltd.in सुचना

अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा अन्य प्रकार्यों, यदि कोई हो, पर विचार तथा अनुमोदन किए

यह जानकारी कंपनी की वेबसाईट अर्थात www.svamsoftwareltd.in उपलब्ध है तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com से भी

> कते स्वैम सॉफ्टवेयर लिमिटेड हस्ता./

बिटस लिमिटेड

पंजी. कार्या.: 711, 7वाँ तल, नई दिल्ली हाउस 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 CIN: L72200DL1992PLC241971

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियम 2015 के विनियमन 47 तथा लागू होने वाले अन्य विनियम के साथ पठित विनियमन 29 के प्रावधानों के अनुपालन एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार 10 फरवरी, 2021 को 11.00 ब पूर्वा. पंजी. कार्या.: 711, 7वाँ तल, नई दिल्ली हाउस, 2 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जायेग जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समा तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं समेकित वित्ती परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिर

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.bits.net. तथा स्टॉक एक्सचैंज जहां कम्पनी के शेयर सचीबद्ध की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध ह बिट्स लिमिटेड के लि

सुरेन्द्र सिंह टैंग स्थानः नई दिल्ली कम्पनी सचिव ए तिथि: 04.02.2021 अनपालन अधिका

सरनामल इन्वस्टमट लामटड (CIN: L65100DL1981PLC012431) पंजी. कार्यालय: 439, विकास मार्ग, जागृति एन्कलेव, दिल्ली-110092 ई-मेल : sarnimalinvestltd@gmail.com वेबसाइट : www.sarnimal.com

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन

अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 वे अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जात है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बृहस्पतिवार, 11 फरवरी, 2021 कं में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा अन्य प्रकार्यों, यदि कोई हो, पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे। यह जानकारी कंपनी की वेबसाईट अर्थात् www.sarnimal.com पर उपलब्ध तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की

> कृते सरनीमल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

> > हस्ता.

तिथि : 04.02.201 नितिन अग्रवाल स्थान : दिल्ली (प्रबन्ध निदेशक

वेबसाइट www.msei.in से भी एक्सेस

की जा सकती है।

रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड डीडी-14, नेहरू एन्क्लेव, कालकाजी पोस्ट आफिस के सामने, नई दिल्ली-110019

सीआईएन : एल 18101 डीएल 1989 पीएल सी 034528 फोन: +91-26213012 / 26236986 फैक्स : +91-26465227

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं वेनियमावली, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित वेनियम 47 के प्रावधान के अनुसरण में, एतदद्वार पुचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल ही बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को अप 04.30 बजे किशोर हाउस, असांध रोड, पानीपत-32103, हरियाणा में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य के साथ, 31 दिसम्बर, 2020 क समाप्त तिमाही और नौ माह हेत् अ—लेखापरीक्षिर वित्तीय परिणाम विचारित, अनुमोदित एव अभिलेखबद्ध किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी की प्रतिभृतियाँ संव्यवहार हेतु व्यापार खिडकी (ट्रेडिंग विन्डो कम्पनी के सभी पदनामित व्यक्तियों तथा उनव निकट संबंधियों के लिए सेबी (अंतरंगी व्यापा निषेघ) विनियमावली, 2015, उसके सभी संशोधन सहित, के अधीन पहले ही 01 जनवरी, 2021 बंद की जा चुकी है तथा यह 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु परिणा सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे बाद खुलेगी। उक्त सूचना कम्पनी की वेबलाइट www.ribatextiles.com तथा स्टॉक एक्सचेन्ज बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

वास्ते रीवा टेक्सटाइल्स लिमिटेव हस्ता/-(नेहा दुवे) स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सेकेटरी

तिथि : 04.02.2021 एम. नंबर : A46655 अभिनव लीजिंग एण्ड फाइनेंस लिमिटेड (CIN: L65100DL1984PLC018748)

पंजी. कार्यालयः एस-524, प्रथम तल, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110092 ई–मेल : abhinavleasefinltd@gmail.com वेबसाइट : www.abhinavleasefinltd.in

सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बृहस्पतिवार, 11 फरवरी, 2021 क में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 31 दिसम्बर, 2020 क समाप्त तिमाही के अंकेक्षित वित्तीय

परिणामों तथा अन्य प्रकार्यों, यदि कोई हो पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे। यह जानकारी कंपनी की वेबसाईट अर्थात् www.abhinavleasefinltd.in तथ साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध सूचना में भी शामिल है।

कृते अभिनव लीजिंग एण्ड फाइनेंस लिमिटेड

तिथि: 04.02.2021 अतुल कुमार अग्रवाल स्थानः दिल्ली

IDIA

जेबीएम ऑटो लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 601, हेमकृत चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

सीआईएन: L74899DL1996PLC083073 ई-मेल: jbma.investors@jbmgroup.com वेबसाइट: www.jbmgroup.com फोन: 011-26427104-06; फीक्स: 011-26427100 कंपनी सूचना सेबी (सूचिबद्ध दायित्वो और प्रकटीयकरण

आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 और 47 के अनुसरण में एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि. अन्य विषयों के साथ-साथ कंपनी के 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त र्तितीय तिमाही और नौमाही वे अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने के लिये कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 9 फरवरी. 2021 को निर्वारित की गई है।

उपरोक्त बैठक का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.jbrngroup.com और स्टॉक रक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com से मी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, इन्साइंडर टेडिंग की

रोकथाम के लिये कंपनी की आचार संहिता के अनुरूप कंपनी के शेयरों के कारोबार वे लिये ट्रेडिंग विंडो को कंपनी के निदेशकों / अधिकारी / के एमपी / पदनामित व्यक्तियों के लिये 1 जनवरी 2021 से 9 फरवरी, 2021 को परिणाम सार्वजनिक किये जाने के उपरांत 48 घण्टे समाप्त होने तक, के लिये बंद रहेगी।

कते जेबीएम ऑटो लिमिटेड

(विवेक गुप्ता) तिथि : 02.02.2021 मुख्य वित्तीय अधिकारी स्थानः नई दिल्ली एवं कंपनी सचिव

10 जनसत्ता, 5 फरवरी, 2021

WISEC GLOBAL LIMITED NH-II, 2ND Floor, C -Block Community Center, Naraina Vihar, New Delhi-110028

Pursuant to the provision of Clause 49 (I) (C) of the Listing Agreement, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th February 2021, to inter-alia, consider, approve and take on record the un audited result for the guarter ended on 31 December 2020. For Wisec Global Limited

Date: 03/02/2021 Rakesh Rampal Whole Time Director Place: New Delhi

CSL Finance Limited Regd. Office: 410-412, 18/12, 4th Floor, W.E.A. Arys

Corp. Office: 716-717, 7" Floor, Tower- B, World Trade Tower, Sector-16, Noida, U.P.-201301 (CIN: L74899DL1992PLC051462; Tel: 0120-4290650; Email: info@cslfinance.in; Web: www.cslfinance.in)

Pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the neeting of the Board of Directors of the Company will be neld on Friday, February 12, 2021, to inter-alia consider Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the guarter and nine months ended December 3 2020 at the corporate office of the company.

Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.

Managing Director एनडीआर ऑटो कम्पोनेंटस लिमिटेड

एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037 CIN: U29304DL2019PLC347460 Website: www.ndrauto.com Email id: info@ndrauto.com Phone No.: 011-6654 4976

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वार सचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक गुरुवार, 11 फरवरी, 2021 को आयोजित होगी जिसमें अन्य विषयौं के अलावे 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही/नौ महीने के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन

एनडीआर ऑटो कम्पोनेंट्स लिमिटेड के लिए स्थानः गुरुग्राम निताशा सिन्ह

मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

ई-मेल : info@bonlongroup.com वेबसाइट : www.bcpowercontrols.com फोन : 011-47532795. फैक्स : 011-47532798

के साथ, 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही हेत् अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित

एवं अनुमोदित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.bcpowercontrols.com तथा स्टॉक एक्सचेन्ज (बीएसई लिमिटेड) की वेबसाइट नामतः www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। इसकें अतिरिक्त सेबी (अंतरंगी व्यापार निषेध) विनियमावली, 2015 के साथ पठित अंतरंगी व्यापार की रोकथाम हेत् कम्पनी की आचा संहिता के अनुसरण में कम्पनी की प्रतिभृतियों मे संव्यवहार के लिए व्यापार खिडकी "ट्रेंडिंग विन्डो" कम्पनी के सभी निदेशकों, अधिकारियो तथा पदनामित कर्मचारियों के लिए 01 जनवरी 2021 से कम्पनी के 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम सार्वजनिक

अनुपालन अधिकारी तिथि : 04.02.2021

एम. नं. : ए४५७१७ स्थान : नई दिल्ली फन्नी सॉफ्टवेयर लिमिटेड CIN: L72300DL2007PLC165836 **पंजीकृत कार्यालय :** ऑफिस नं. 208, दूसरा तल,

इंमेल आईडी : funny\_soft@yahoo.com www.funnysoftwarelimited.com और स्टॉक एक्सवेंज वेबसाइट www.bseindia.com पर मी उपलब्ध है। कृते फन्नी सॉफ्टबेक्र लिमिटेड

हस्ता /-स्थान : दिल्ली िर्माक : 04 02 2024 पूर्णकासिन निदेशक

सत्कार फिनलीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 829, लक्ष्मीदीप बिल्डिंग, 8वां तल, हिस्ट्रिक्ट सेंटर, वीअएस माल के आगे लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 CIN: L65910DL1996PLC075394

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)(ए) के अनुसरण में एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुघवार, 10 फरवरी, 2021 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विवार कर उन्हें अनुमोदित किया जाएगा।

पर मी उपलब्ध होगी। कृते सत्कार फिनलीज लिमिटेड

दिनांक : 04.02.2021

पोंश कैपिटल मार्केंट लिमिटेड CIN: L65993DL1992PLC048483 **पंजीकृत कार्यालय :** के एच-810 दूसरा तल महिपाल पूर एक्स्टेंशन (नियर मारुति वर्क शाँप) नई दिल्ली साउध वेस्ट दिल्ली डी एल - 110037 वेबसाइट : www.porschecapital.com

बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के

विनियम 47 के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल की

बैठक बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को आयोजित की

जाएगी जिसमें अन्य बातों के साध-साथ 31 दिसम्बर

2020 को समाप्त तिमाही के जलेखापरीकित विलीय

परिणामों पर विचार कर उन्हें रिकार्ड में लिया जाएगा

कथित स्वना की प्रति कम्पनी की वेबसाइट

www.porschecapital.com और स्टॉक एक्सचेंज

**ADHBHUT** 

INFRASTRUCTURE

LIMITED

(CIN: L51503DL1985PLC020195)

Regd. Office: D-15, Pamposh Enclave

Greater Kailsh-1, New Delhi - 110048

Phone: +91-11-45210051

E-mail: adhbhut.ind@rediffmail.com

Website: www.adhbhutinfra.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to

the Regulation 29 read with Regulation

47 of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations

2015, a meeting of the Board of

Directors of the company scheduled to

be held on Thursday, February 11,

2021, inter alia, to consider, approve

and take on record the unaudited

Financial Results for the Quarter

and Nine Months Ended on

The said Notice may be accessed

on the Company's website at

https://www.adhbhutinfra.com/ and the

For Adhbhut Infrastructure Limited

ANUBHAV DHAM

DIN: 02656812

Director

website of BSE http://www.bseindia.com/.

December 31, 2020.

Date: 04.02.2021

Place: New Delhi

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 4.2.2021

कम्पनी सचिव

सदस्यता सं.: ए27439

कृते पांशं कैपिटल गार्केंट निमिटेड

वेबसाइट www.msei.in पर भी उपलब्ध है।

स्थान : दिल्ली

ईमेल आई दी : porche\_capital@yahoo.in

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 वैकों तथा दिलीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसली अधिनियम, 1983 की धारा 19(4) के साथ रित ऋण वसुली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 एवं 13 के तहत नोटिस एतददारा सचित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण

ओ.ए सं. 255 / 2019 / डीआरटी—।।। के मामले में

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।।। दिल्ली

चतुर्ध तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

पंजाब नैशनल बैंक श्री दीपांकर तिवारी

प्रतिवादी डी-1 श्री दीपांकर तिवारी पुत्र श्री अनिल

आवेदक

कुमार तिवारी प्रोपराईटर मैसर्स आनंद प्रेस, निवासी: ए-3/49-50, सेक्टर-11, रोहिणी, राजन टीरकी दिल्ली-110085, <u>और</u> जीएल-29, जीटी करनाल रोड, दिल्ली, और: प्लॉट नं. 35, गली नं. 15, समय पुर औद्योगिक क्षेत्र, समय पुर, दिल्ली

> जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरुद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस नोटिस के माध्यम से आपको दिनांक 16-02-2021 को पूर्वाह 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपरिधत होने का निर्देश दिया जाता है।

> ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समझ उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपरिथति में किया

चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा:-

(i) सभी अधिवक्ता/पात्रगण सिस्को वेदेवस एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे: "रजिस्ट्रार/रिकवरी ऑफिसर–।/और रिकवरी ऑफिसर–।। द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए 'मीटिंग आईडी'' और "पासवर्ड" DRT की आधिकारिक तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होगी। पब्लिक नोटिस हेड के तहत पोर्टल अर्थात "drt.gov.in"

लिटिगेंटस संबंधित अधिकारी से फोन 23748469. मेरे हरताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 31 दिसम्बर, 2020 को दिया गया।

(iii) किसी भी जानकारी हेतू, एडवोकेट्स/

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार हस्ता/- सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-।।।, नई दिल्ली

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED CIN: L51909DL1984PLC019485 9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi - 110006

Email ID: cs@neccgroup.com, Tel No.: 011-23517516-19 Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby give notice that the Meeting of the Board of Directors of the Company is cheduled to be held on **Thursday, February 11, 2021** inter-alla to consider and approve un-audited Financial Results of the Company for the third quarter ended December 31, 2020.

Further, it is informed that as per Company's Code of Internal Procedures and Conduct for Regulating. Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 read with SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 as amended from time to time, the 'Trading Window' is already closed from Friday, January 1 2021. The window will be opened from the conclusion of 48 hours from the declaration of un-audited Financial Results of the Company. The period of closure of Trading Window is from Friday, January 1 2021 to Saturday, February 13, 2021 and Trading Window will open with effect from Sunday, The information is also available on the Website of the Company www.neccgroup.com and on the

website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

Date: 04.02.2021 Place : Delhi

अनंत राज लिमिटेड (पूर्व में अनंत राज इंडस्ट्रीज लि.) CIN: L45400HR1985PLC021622

पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. सीपी-1, सेक्टर-8, आईएमटी मानेसर, हरियाणा-122051 **Anant Raj LIMITED** प्रधान कार्यालयः एच-65 कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 फोन.: 011-43034400, 011-23324127, टेलीफैक्स: 0124-4265817

E-mail: manojpahwa@anantrajlimited.com, वेबसाइट: www.anantrajlimited.com सूचना

अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में कंपनी वे निदेशक मंडल की एक बैठक शक्नवार, 12 फरवरी, 2021 को एच-65, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमार्ह तथा नौ माही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैण्डएलॉन एवं समेकित) पर विचार, अनुमोदन उक्त सूचना कंपनी की वेबसाईट www.anantrajlimited.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईद बीएसई www.bseindia.com तथा एनएसई: www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं जह कम्पनी के शेयर सूची बद्ध हैं।

एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन

अनंत राज लिमिटेड के लिये मनोज पाहव

(Utkarsh Jain)

DIN: 05271884

(कंपनी सचिव एम.नं. A-7812

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्युल्ड कमशिंयल बैंक )

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना) जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एव स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेडवल्ड कमर्शियल बैंक) का प्राधिकत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन [अधिनियम 2002 ( 2002 का 54 )] '' और प्रतिभृतिहित ( प्रवर्तन ) नियमों के नियम ( 3 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना 20 मई 2019 ऋण खाता संख्या:

L9001060715014564), निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी **समन ( ऋणी एवं बंधककर्ता** ), कमलेश ( सह-ऋणी ) से नोटिस में वर्णित रूपये 1894512/- ( अक्षरे अठारह लाख चौरानवे हजार पांच सौ बारह मात्र ) की राशि इस नोटिस कि प्राप्ति कि दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा ऋणी /बन्धकर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी /बन्धकर्ता को तथा समान्यजन को एतद द्वारा सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) तथा संपठित प्रतिभतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कड़जा दिनांक 30 माह **जनवरी** वर्ष 2021 को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणी /सह-ऋणी /बन्धकर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार **रुपये 2636408**/-( अक्षरे छबबीस लाख छततीस हजार चार सौ आठ मात्र ) की राशि दिनांक 30 जनवरी 2021 तक तथा आगे का ब्याज एवं कुल भूगतान होने तक की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ( ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ) के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभृत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 8 ) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। स्थावर सम्पत्ति का विवरण

समन कमारी की सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी / गैररिहायशी भिम, बिल्डिंग, स्टक्बर, एवं

फिक्चर स्थित सम्पत्ति द्वितीय तल, छत के अधिकार सहित सम्पत्ति नम्बर-43 दक्षिणी दीवार 4.5'' की तरफ, खासरा नम्बर - 655 से 657, 844/605, जरिजन कॉलोनी के नाम से ज्ञात साबन पार्क, गांब-वजीरपुर, दिल्ली-110052, क्षेत्रफल 204.44 वर्ग गज पर स्थित है। जिसकी चारो सीमाएं:-अन्य की सम्पत्ति

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय राड्की दिनांकः 01 फरवरी, 2021 पत्रांक-लघु निर्माण/2020-21/3189

# -:अल्पकालीन निविदा सूचना:-

दिनांकः ३० जनवरी, २०२१

स्थान : दिल्ली

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड की ओर से उप जिला (संयुक्त) चिकित्सालय रूड़की, जनपद हरिद्वार में लघ निर्माण / मरम्मत कार्य हेत विभिन्न राजकीय अभियंत्रण इकाईयों में पंजीकरण निविदादाताओं द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2021 अपराहन 02:00 बजे तक मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन अपराहन 03:00 बजे निविदादाता तथा निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। उक्त तिथि को अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस को उपरोक्त नियत समय से प्राप्त की जायेगी एवं खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 12 फरवरी, 2021 अपरान्ह 04:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय से निर्धारित मूल्य जमा कर क्रय की जा सकती है। निविदा का विवरण निम्नवत हैं-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू० में (जी०एस०टी० कर सहित)	घरोहर घनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	उप जिला चिकित्सालय, रूड़की के प्रथम तल के आई ओ०टी० में निर्माण का कार्य।		₹590.00	₹30,000.00	30 दिन
2.	उप जिला चिकित्सालय, रूड़की के प्रथम तल के गायनी ओ०टी० में निर्माण का कार्य।		₹590.00	₹18,000.00	30 दिन

www.readwhere.com

(प्रति शेयर डैटा को छोड़कर रु. लाख में)

बोर्ड के आदेश र कर्त एकवांक मीटरिंग टेक्नोऑफी सिमिटेड राकेश दोडी ए.बी.पी (कॉपॉरेट कार्य) RR: 04.02.2021 एवं कंपनी श्रविव

CIN: L27106DL1985PLC021811, फोन: 011-23551821

व्यवसायों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

केडी-46. कवि नगर, गाजियाबाद-201002

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 13th February, 2021 at 11:00 A.M. inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the

For INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

पंजी. कार्यालय: फ्लैट नं. 901-बी, देवीका टॉवर

सेबी (आपत्तियों के सुचीकरण एवं प्रकृटीकरण

अधिसचित है।

जीत राजेन शाह

स्वैम सॉफ्टवेयर लिमिटेड

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन

एक्सेस की जा सकती है।

तिथि: 04.02.2021 मनीषा अग्रवाल स्थानः दिल्ली (प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 04.02.2021 Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005

he said notice is also available on the website of the Company i.e. www.cstfinance.in and on the website of

By order of the Board (Rohit Gupta)

पंजीकृत कार्यालय : लेवल-5, रेगस कैडी कॉमर्शियल टॉवर, हॉस्पिटलिटी डिस्टिक्ट

उक्त जानकारी वेबसाइट www.ndrauto.com www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर भी उपलब

बी.सी. पावर कन्ट्रोल्स लिमिटेड (सीआईएन : L31300DL2008PLC179414) पंजी. कार्यालय : 7ए/39, डब्ल्यूईए चानना

एतदद्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनिधम 47 के अनसरण में सचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शनिवार, 13 फरवरी, 2021 को 7ए/39, ढब्ल्युईए चानना मार्केट, करोल बाग नई दिल्ली— 110005 में स्थित इसके पंजीकत कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य

किए जाने के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी। बोर्ड के आदेश द्वार वास्ते बी.सी. पावर कन्ट्रोल्स लिमिटेड हस्ता. /-अंकित गर्ग कम्पनी सचिव एवं

प्लॉट नं. ए-1, मध्यन टॉवर, वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर दिल्ली - 110092 (तदहारा सुवित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)(क) के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंदल की बैठक बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को कम्पनी के पंजीकत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वितीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा। कथित सूचना की प्रति कम्पनी की वेबसाइट

कथित सबना कम्पनी की वेबसाइट www.satkarfiniease.in और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com

स्थान : विल्ली रूप सिंह पूर्णकालिक निदेशक

एयू स्मॉल फाइनेंस वेंक लिमिटेड

प्राधिकृत अधिकारी

उपरोक्त सभी कार्यों हेतु पृथक-पृथक निविदाएं (तकनीकी व वित्तीय) उपलब्ध करानी होगी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय, रूड़की